



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, अगस्त 22—अगस्त 28, 2004 शनिवार/श्रावण 31—भाद्र 6, 1926
No. 35] NEW DELHI, AUGUST 22—AUGUST 28, 2004 SATURDAY/SRAVANA 31—BHADRA 6, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2004

सा.का.नि. 286.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मंत्रिमंडल सचिवालय (पुस्तकालय और सूचना सहायक) भर्ती नियम, 1994 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, मंत्रिमंडल सचिवालय में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मंत्रिमंडल सचिवालय (पुस्तकालय और सूचना सहायक) भर्ती नियम, 2004 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
4. आरंभिक गठन.—उक्त अनुसूची के स्तंभ 1 में दर्शित पद का ऐसा पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को ऐसा पद नियमित आधार पर या दीर्घकालिक आधार पर धारण किए हुए है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन सम्यक् रूप से नियुक्त किया हुआ समझा जाएगा।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
पुस्तकालय और सूचना सहायक	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसूचिणीय	5000-150-8000 रु.	चयन
सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		
6	7	8		
हां	28 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी	आवश्यक : 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य। 2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या समतुल्य टिप्पण : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।		

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
9	10	11
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अंतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अंतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13	14
प्रतिनियुक्ति/आमेलन केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने 4500-125-7000 रु. के वेतनमान वाले पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और (iii) जिन्होंने 3050-4590 रु. के वेतनमान या समतुल्य वाले पद पर तेरह वर्ष की नियमित सेवा की है। (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/1/94-प्रशा. I]

सुनील मिश्र, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 19th August, 2004

G.S.R. 286.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Cabinet Secretariat (Library & Information Assistant) Recruitment Rules, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the Cabinet Secretariat namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Cabinet Secretariat (Library and Information Assistant) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Initial Constitution.—The incumbent of the post shown in column 1 of the said Schedule, who is holding such post on regular or long term basis on the date of commencement of these rules, shall be deemed to have been duly appointed under the provisions of these rules.

5. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Library and Information Assistant	01* (2004) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Selection
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension Rules), 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits		
6	7	8		
Yes	Not exceeding 28 years (relaxable upto 40 years, in case of Government servants and upto 45 years in respect of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission	Essential:— 1. Degree from a recognised University or equivalent. 2. A Degree in Library Science from a recognised University or equivalent. Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.		

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
9	10	11
Not applicable	Two years for direct recruits	By deputation/absorption failing which by direct recruitment
In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Deputation/absorption :— Officers under the Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in the grade in the scale of pay of Rs. 4500-125-7000; or (iii) with thirteen year's regular service in the grade in the scale of pay of Rs. 3050-4590 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years)	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/1/94-Admn. I]

SUNIL MISHRA, Dy. Secy.

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2004

सा.का.नि. 287.— राष्ट्रपति, एतद्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श से केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियमावली, 2004 है।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11, में मद (iii) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) बिना संचयी प्रभाव के तथा उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए समय वेतनमान (टाइम स्केल) में एक स्तर की कटौती करके, इसे एक स्तर नीचे लाना।”

[फा. सं. 11012/5/2003-स्थापना (क)]

श्रीमती प्रतिभा मोहन, निदेशक

2501 GJ/04-2

पाद टिप्पण : मुख्य नियम दिनांक 20-11-1965 की अधिसूचना संख्या 7/2/63-स्थापना (क) के अंतर्गत प्रकाशित किए गए और बाद में निम्नलिखित संख्या और तारीख वाली अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किए गए थे :—

- का.आ. 1149 दिनांक अप्रैल 13, 1966
- का.आ. 1596 दिनांक जून 4, 1966
- का.आ. 2007 दिनांक जुलाई 9, 1966
- का.आ. 2648 दिनांक सितम्बर 2, 1966
- का.आ. 2854 दिनांक अक्टूबर 1, 1966
- का.आ. 1282 दिनांक अप्रैल 15, 1967
- का.आ. 1457 दिनांक अप्रैल 29, 1967
- का.आ. 3253 दिनांक सितम्बर 16, 1967
- का.आ. 3530 दिनांक अक्टूबर 7, 1967
- का.आ. 4151 दिनांक नवम्बर 25, 1967
- का.आ. 321 दिनांक मार्च 9, 1968
- का.आ. 1441 दिनांक अप्रैल 27, 1968
- का.आ. 1870 दिनांक जून 1, 1968
- का.आ. 3423 दिनांक सितम्बर 28, 1968
- का.आ. 5008 दिनांक दिसम्बर 27, 1969
- का.आ. 397 दिनांक फरवरी 7, 1970
- का.आ. 3521 दिनांक सितम्बर 25, 1971
- का.आ. 249 दिनांक जनवरी 1, 1972
- का.आ. 990 दिनांक अप्रैल 22, 1972
- का.आ. 1600 दिनांक जुलाई 1, 1972
- का.आ. 2789 दिनांक अक्टूबर 14, 1972
- का.आ. 929 दिनांक मार्च 31, 1973
- का.आ. 1648 दिनांक जुलाई 6, 1974
- का.आ. 2742 दिनांक जुलाई 31, 1976
- का.आ. 4664 दिनांक दिसम्बर 11, 1976
- का.आ. 3062 दिनांक अक्टूबर 8, 1977
- का.आ. 3573 दिनांक नवम्बर 26, 1977
- का.आ. 3574 दिनांक नवम्बर 26, 1977
- का.आ. 3671 दिनांक दिसम्बर 3, 1977
- का.आ. 2464 दिनांक सितम्बर 2, 1978
- का.आ. 2465 दिनांक सितम्बर 2, 1978
- का.आ. 920 दिनांक फरवरी 17, 1979
- का.आ. 1769 दिनांक जुलाई 5, 1980
- का.आ. 264 दिनांक जनवरी 24, 1981
- का.आ. 2126 दिनांक अगस्त 8, 1981
- का.आ. 2203 दिनांक अगस्त 22, 1981
- का.आ. 2512 दिनांक अक्टूबर 3, 1981
- का.आ. 168 दिनांक जनवरी 23, 1982
- अधिसूचना सं. 11012/15/84-स्था. (क) दिनांक जुलाई 5, 1985

- अधिसूचना सं. 11012/05/85-स्था. (क) दिनांक जुलाई 29, 1985
 अधिसूचना सं. 11012/06/85-स्था. (क) दिनांक अगस्त 6, 1985
 का.आ. 5637 दिनांक दिसम्बर 21, 1985
 का.आ. 5743 दिनांक दिसम्बर 28, 1985
 अधिसूचना सं. 11012/24/85-स्था. (क) दिनांक नवम्बर 26, 1986
 का.आ. 830 दिनांक मार्च 28, 1987
 का.आ. 831 दिनांक मार्च 28, 1987
 का.आ. 1591 दिनांक जून 27, 1987
 का.आ. 1825 दिनांक जुलाई 18, 1987
 का.आ. 3060 दिनांक अक्टूबर 15, 1988
 का.आ. 3061 दिनांक अक्टूबर 16, 1988
 का.आ. 2207 दिनांक सितम्बर 16, 1989
 का.आ. 1084 दिनांक अप्रैल 28, 1990
 का.आ. 2208 दिनांक अगस्त 25, 1990
 का.आ. 1481 दिनांक जून 13, 1992
 सा.का.नि. 289 दिनांक जून 20, 1992/भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i)
 सा.का.नि. 589 दिनांक दिसम्बर 26, 1992
 सा.का.नि. 499 दिनांक अक्टूबर 8, 1994
 सा.का.नि. 276 दिनांक जून 10, 1995
 सा.का.नि. 17 दिनांक फरवरी 20, 1996
 सा.का.नि. 125 दिनांक मार्च 16, 1996
 सा.का.नि. 417 दिनांक अक्टूबर 5, 1996
 सा.का.नि. 337 दिनांक सितम्बर 2, 2000
 सा.का.नि. 420 दिनांक अक्टूबर 28, 2000
 सा.का.नि. 211 दिनांक अप्रैल 14, 2001
 सा.का.नि. 60 दिनांक फरवरी 13, 2002
 सा.का.नि. 2 दिनांक जनवरी 3, 2004
 सा.का.नि. 113 दिनांक अप्रैल 10, 2004
 सा.का.नि. 225 दिनांक जुलाई 10, 2004

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 23rd August, 2004

G.S.R. 287.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 2004.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in rule 11, for item (iii a), the following shall be substituted, namely :—
 “(iii a) reduction to lower stage in the time-scale of pay by one stage for a period not exceeding three years, without cumulative effect and not adversely affecting his pension.”

[F. No. 11012/5/2003-Estt. (A)]
 SMT. PRATIBHA MOHAN, Director

Foot note : The principal rules were published vide notification number 7/2/63-Estt. (A), dated 20th November, 1965 and subsequently amended by number,—

- S.O. 1149 dated the 13th April, 1966
- S.O. 1596 dated the 4th June, 1966
- S.O. 2007 dated the 9th July, 1966
- S.O. 2648 dated the 2nd September, 1966
- S.O. 2854 dated the 1st October, 1966
- S.O. 1282 dated the 15th April, 1967
- S.O. 1457 dated the 29th April, 1967
- S.O. 3253 dated the 16th September, 1967
- S.O. 3530 dated the 7th October, 1967
- S.O. 4151 dated the 25th November, 1967
- S.O. 321 dated the 9th March, 1968
- S.O. 1441 dated the 27th April, 1968
- S.O. 1870 dated the 1st June, 1968
- S.O. 3423 dated the 28th September, 1968
- S.O. 5008 dated the 27th December, 1969
- S.O. 397 dated the 7th February, 1970
- S.O. 3521 dated the 25th September, 1971
- S.O. 249 dated the 1st January, 1972
- S.O. 990 dated the 22nd April, 1972
- S.O. 1600 dated the 1st July, 1972
- S.O. 2789 dated the 14th October, 1972
- S.O. 929 dated the 31st March, 1973
- S.O. 1648 dated the 6th July, 1974
- S.O. 2742 dated the 31st July, 1976
- S.O. 4664 dated the 11th December, 1976
- S.O. 3062 dated the 8th October, 1977
- S.O. 3573 dated the 26th November, 1977
- S.O. 3574 dated the 26th November, 1977
- S.O. 3671 dated the 3rd December, 1977
- S.O. 2464 dated the 2nd September, 1978
- S.O. 2465 dated the 2nd September, 1978
- S.O. 920 dated the 17th February, 1979
- S.O. 1769 dated the 5th July, 1980
- S.O. 264 dated the 24th January, 1981
- S.O. 2126 dated the 8th August, 1981
- S.O. 2203 dated the 22nd August, 1981
- S.O. 2512 dated the 3rd October, 1981
- S.O. 168 dated the 23rd January, 1982

- Notification No. 11012/15/85-Estt. (A) dated the 5th July, 1985
 Notification No. 11012/05/85-Estt. (A) dated the 29th July, 1985
 Notification No. 11012/06/85-Estt. (A) dated the 6th August, 1985
 S.O. 5637 dated the 21st December, 1985
 S.O. 5743 dated the 28th December, 1985
 Notification No. 11012/24/85-Estt. (A) dated the 26th November, 1986
 S.O. 830 dated the 28th March, 1987
 S.O. 831 dated the 28th March, 1987
 S.O. 1551 dated the 27th June, 1987
 S.O. 1825 dated the 18th July, 1987
 S.O. 3060 dated the 15th October, 1988
 S.O. 3061 dated the 16th October, 1988
 S.O. 2207 dated the 16th September, 1989
 S.O. 1084 dated the 28th April, 1990
 S.O. 2208 dated the 25th August, 1990
 S.O. 1481 dated the 13th June, 1992
 G.S.R. 289 dated the 20th June, 1992/in Part, II Sec. 3, Sub-Sec. (i)
 G.S.R. 589 dated the 26th December, 1992
 G.S.R. 499 dated the 8th October, 1994
 G.S.R. 276 dated the 10th June, 1995
 G.S.R. 17 dated the 20th February, 1996
 G.S.R. 125 dated the 16th March, 1996
 G.S.R. 417 dated the 5th October, 1996
 G.S.R. 337 dated the 2nd September, 2000
 G.S.R. 420 dated the 28th October, 2000
 G.S.R. 211 dated the 14th April, 2001
 G.S.R. 60 dated the 13th February, 2002
 G.S.R. 2 dated the 3rd January, 2004
 G.S.R. 113 dated the 10th April, 2004
 G.S.R. 225 dated the 10th July, 2004

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2004

सा.का.नि. 288.—भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 10, 10 जनवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल (आर्थोपेडिशियन) (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2003 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

(क) नियमों का नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल (आर्थोपेडिशियन) (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त उल्लिखित नियमों की अनुसूची के स्तम्भ 2 में अंक "2003" को अंक "2004" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[संख्या ए-11018/6/2002-आर.आर./एम.ई.-IV]

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

2501 GL/89-3

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th August, 2004

G.S.R. 288.—In the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, (Orthoptician) (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2003, published in the Gazette of India vide No. G.S.R. 10 on 10th January, 2004, the following substitution shall be made :—

- (a) The title of the rules shall be substituted by the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, (Orthoptician) (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2004.
- (b) In column 2 of the schedule to the above mentioned rules figure '2003' shall be substituted by figure '2004'.

[No. A-11018/6/2002-RR/ME-IV]
MAHABIR PERSHAD, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2004

सा.का.नि. 289.—भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 9, 10 जनवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, सफाई सहायक, श्रेणी "ग" पद भर्ती नियम, 2003 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

- (क) नियम का नाम जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी, सफाई सहायक, समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ख) उपर्युक्त उल्लिखित नियमों की अनुसूची के स्तम्भ 2 में अंक '2003' को अंक '2004' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[संख्या ए-12018/9/97-आर.आर./एम.ई.-IV]

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th August, 2004

G.S.R. 289.—In the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, Sanitary Assistant Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2003, published in the Gazette of India vide No. G.S.R. 9 on 10th January, 2004, the following substitution shall be made :—

- (a) The title of the rules shall be substituted by the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, Sanitary Assistant Group 'C' post, Recruitment Rules, 2004.
- (b) In column 2 of the schedule to the above mentioned rules figure '2003' shall be substituted by figure '2004'.

[No. A-12018/9/97-RR/ME-IV]
MAHABIR PERSHAD, Under Secy.

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2004

सा.का.नि. 290.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रकाशन विभाग वर्ग III पद भर्ती नियम, 1974 को, जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक पद और प्रकाशन विभाग (आशुलिपिक उच्चतर श्रेणी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 1978 से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, प्रकाशन विभाग में आशुलिपिक (श्रेणी II) और आशुलिपिक (श्रेणी III) के पद/पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रकाशन विभाग आशुलिपिक (श्रेणी II) और आशुलिपिक (श्रेणी III) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए ओ कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. आशुलिपिक (श्रेणी-II)	दो* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अनुसचिवीय	5000-150- 8000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		
7	8	9	10		
25 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।	(1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (2) आशुलिपिक (अंग्रेजी या हिन्दी) में सौ शब्द प्रति मिनट की गति।	लागू नहीं होता	प्रोन्नत और सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।		

टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

भर्ती की प्रकृति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न प्रकृतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (सीधी भर्ती विहित की जा सकती है, इसका केवल तभी आश्रय लिया जा सकता है जब पोषक श्रेणी की पर्याप्त संख्या नहीं है या पद को प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने की कोई संभावना नहीं है।)	प्रोन्नति : (क) 4000-100-6000 रु. के वेतनमान वाले ऐसे आशुलिपि श्रेणी-III से प्रोन्नति, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। (ख) जो आशुलिपि में (अंग्रेजी या हिन्दी) सौ शब्द प्रति मिनट की गति रखते हैं। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभागों में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर या पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, (पुष्टि के मामलों पर विचार के लिए) :—	लागू नहीं होता

- | | |
|---|----------|
| 1. उप नियंत्रक, उसकी अनुपस्थिति में प्रकाशन का नियंत्रक | —अध्यक्ष |
| 2. सहायक नियंत्रक (प्रशासन) | —सदस्य |
| 3. अवर सचिव (लेखन सामग्री और प्रकाशन),
शहरी विकास मंत्रालय | —सदस्य |

1	2	3	4	5	6
2. आशुलिपिक (श्रेणी-III)	तीन* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अनुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
18 से 25 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	(1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (2) आशुलिपि (अंग्रेजी या हिन्दी) में अस्सी शब्द प्रति मिनट की गति।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती।	लागू नहीं होता
टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों को ऐसे पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के आधार पर भरा जा सकेगा, जो केन्द्रीय सरकार में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और सीधी भर्ती के लिए स्तम्भ 8 विहित अर्हताएं रखते हों।	
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, (पुष्टि के मामलों पर विचार के लिए) :—	लागू नहीं होता
1. उप नियंत्रक, उसकी अनुपस्थिति में प्रकाशन का नियंत्रक	—अध्यक्ष
2. सहायक नियंत्रक (प्रशासन)	—सदस्य
3. अवर सचिव (लेखन सामग्री और प्रकाशन), शहरी विकास मंत्रालय	—सदस्य

[फा. सं. ए-11018/1/99-पी एस पी]

श्याम सुन्दर, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 26th August, 2004

G.S.R. 290.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Department of Publication (Stenographer Higher Grade) Group 'C' Post Recruitment Rules, 1978 and the Department of Publication Class II Posts Recruitment Rules, 1974, in so far as they relate to the post of Stenographer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade II and Stenographer Grade III in the Department of Publication, Ministry of Urban Development, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Publication Stenographer Grade II and the Stenographer Grade III Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required

250195/01-4

to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Stenographer Grade-II	Two* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5000-150 8000	Non-selection	Not applicable

Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
25 years (Relaxable for Government servants up to 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	(1) Matriculation or equivalent; (2) A speed of hundred words per minute in Stenography (English or Hindi).:	Not applicable	Two years for promotees and direct recruits.

Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
11	12
By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment. (Direct recruitment may be prescribed, resorted to only when there is not enough feeder grade strength or when there is no possibility of filling up of the posts by deputation.)	Promotion : (a) promotion from Stenographer Grade III in the scale of Rs. 4000—6000 with five years regular service in the grade. (b) possessing a speed of hundred word per minute in Stenography (English or Hindi). Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceeding two years.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation cases) :—	Not applicable
1. Deputy Controller, in his absence Controller of Publication —Chairman	
2. Assistant Controller (Administration) —Member	
3. Under Secretary (Stationery and Publication), Ministry of Urban Development —Member	

1	2	3	4	5	6
2. Stenographer Grade-III	Three* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 4000-100-6000.	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
18 to 25 years (Relaxable for Government servants up to 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	(1) Matriculation or equivalent; (2) A speed of eighty words per minute in Stenography (English or Hindi).	Not applicable	Two years
Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.			

11	12
Direct recruitment through Staff Selection Commission. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at column 8.	Not applicable

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation cases) :—	Not applicable
1. Deputy Controller, in his absence Controller of Publication —Chairman	
2. Assistant Controller (Administration) —Member	
3. Under Secretary (Stationery and Publication), Ministry of Urban Development —Member	

[F. No. A-11018/1/99-PSP]
SHYAM SUNDER, Under Secy.

श्रम और रोजगार मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2004

सा.का.नि. 291.—भारत के राजपत्र संख्या सा.का.नि. 430(अ) दिनांक 23-05-2003 में प्रकाशित इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस-65012/1/2000-एस. एस. II दिनांक 19-05-2003 के अन्त में निम्नलिखित को शामिल कर लिया जाए :—

“पाद टिप्पण :—कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 748(अ) दिनांक 16-11-1995 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें अन्तिम संशोधन दिनांक 8-10-2001 को संख्या सा.का.नि. 774(अ) द्वारा किया गया था।”

[फा.सं. एस-65012/1/2000-एस.एस. II]

संयुक्ता राय, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th August, 2004

G.S.R. 291.—In the notification of this Ministry No. S-65012/1/2000-SS-II dated 19-5-2003 published in the Gazette of India having No. GSR 430(E) dated 23-5-2003, at the end of the notification the following shall be inserted :—

“Foot Note :—The Employees’ Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India *vide* Notification Number GSR 748(E) dated 16-11-1995 and was last amended *vide* No. GSR 774(E) dated 8-10-2001.”

[F. No. S-65012/1/2000-SS-II]

SANJUKTA RAY, Under Secy.